

नकली दवाओं की शिकायत पर देर रात छापा, संचालक दुकान छोड़कर भागा

Publish Date: | Tue, 25 Feb 2020 09:07 AM (IST)

नईदुनिया

रायपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि नकली दवाइयां बेचे जाने की शिकायत के बाद राजधानी के मेडिकल स्टोर में बड़ी कार्रवाई की गई। जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की कार्रवाई में देवपुरी स्थित गौतम मेडिकल स्टोर में लगभग 20 लाख रुपये की दवाइयां जब्त की गई। इधर पूछताछ के बाद संचालक वहां से फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की रात खाद्य एवं

रायपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि

नकली दवाइयां बेचे जाने की शिकायत के बाद राजधानी के मेडिकल स्टोर में बड़ी कार्रवाई की गई। जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की कार्रवाई में देवपुरी स्थित गौतम मेडिकल स्टोर में लगभग 20 लाख रुपये की दवाइयां जब्त की गई। इधर पूछताछ के बाद संचालक वहां से फरार हो गया।

मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की रात खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की चार सदस्यीय टीम ने मेडिकल स्टोर में दबिश दी। इस बीच मेडिकल संचालक शिशुपाल मंधानी से ड्रग इंस्पेक्टर ने पूछताछ कर कागजात और अन्य जानकारी मांगी। बाकी अधिकारी दवाइयों की जांच में जुट गए। कार्रवाई को देखते हुए संचालक वहां से भाग निकला। इधर विभाग ने मेडिकल स्टोर से लगभग 20 लाख की दवा जब्त की है। इसमें 80 हजार टेबलेट होने की बात सामने आई है। इधर विभाग ने तीन दवाइयों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है, जिसमें दो दवा के प्रोडक्टर दिल्ली और एक मुंबई की कंपनी बताई जा रही है। जांच करने पहुंची टीम में ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग इंस्पेक्टर नीरज साहू, सुरेश साहू, टेकचंद समेत अन्य अधिकारी शामिल थे।

निजी मेडिकल में आइटी की दबिश

इधर शहर के एक अन्य निजी प्रतिष्ठित मेडिकल स्टोर में देर रात इनकम टैक्स विभाग ने दबिश दी। इसमें मेडिकल स्टोर के छह फ्रेंचाइजी शाखाओं में कार्रवाई के दौरान आय-व्यय का ब्योरा खंगाला गया। कार्रवाई के दौरान आइटी टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मेडिकल स्टोर संचालक से देर रात तक आधी शटर गिराकर पूछताछ की जाती रही।

दवा कारोबारियों में हड़कंप

देर रात तक दो मेडिकल स्टोर में कार्रवाई की खबर दवा बाजार में तेजी से फैल गई। घटनाक्रम के बीच दवा कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। शहर में कार्रवाई के डर से अन्य मेडिकल स्टोर के संचालक दुकान को जल्दी बंद कर चलते बने। कारोबारी स्थिति को लेकर देररात तक टोह लेते नजर आ रहे थे।

वर्जन

नकली दवाएं होने की सूचना पर गौतम मेडिकल एजेंसी में ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से छापाकार कार्रवाई की गई है। अभी तीन दवाओं का सैंपल लिया गया। इससे लैब रिपोर्ट के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे।

Source: <https://www.naidunia.com/chhattisgarh/raipur-late-night-raid-on-fake-drug-complaint-operator-ran-out-of-shop-5364627>